EF175保修卡:

成型尺寸95X74mm, 封面128g哑粉纸,表面哑油, 内页80g, 骑马钉装订。

Safety and Warranty

FCC ID: 2ABZ2-E503AR FCC ID: 2ABZ2-E503AL HVIN: E503AL, E503AR

Safety Information and Warranty Información de Seguridad y Garantía सुरक्षा जानकारी और वारंटी

OnePlus Buds Pro

2. Assistance es econeva o nier as base in a casa e cone pour obtenir des informations sur l'assistance et le dépannage, les forums de discussion des utilisateurs et les derniers téléchargements du logiciel OnePlus, visitez le site https://www.oneplus.com/fr/support 13, La température de fonctionnement de l'appareil est de 0 ° C à 35 ° C, avec une humidité de 45% à 75%. La température de stockage de l'appareil est de -15 ° C à 35 ° C. Une température trop élevée ou trop basse peut dégrader la qualifé et même endommager les écouteurs et la batterie.

14, La température de fonctionnement du chargeur est de 5 ° C à 35 ° C. Une température trop élevée ou trop

atterie exposée à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de

uillez jeter la batterie selon la réglementation locale. Ne mettez pas au rebut la batterie comme un simple

the Type-C-to-USB cable that connects the box to the PC or PC adapter. Use a soft, dry and lint-free cloth to clean the Type-C plug and bottom of OnePlus Buds Pro tube. Do not use liquid cleanser. 2. Support planket, pillow, or your body. If your body is not very perceptive to heat, be especially careful. downloads, go to https://www.onsplus.com/global/support
3. The device operating temperature is O°C to 35°C, with humidity of 45% to 75%. The device storage temperature is -15°C to 35°C. Too high or too low temperature may degrade quality and even damage the buds and a continuous high volume will lower the actual volume heard to below the set volume. Check the volume before playing an audio after inserting the OnePlus Buds Pro.

[Warning] To avoid hearing damage, do not listen to music at high volume for long. 4. The charger operating temperature is 5°C to 35°C. Too high or too low temperature will stop the buds from being charged, or even cause damages to the device.

15. Do not use the buds during thunderstorms as electric shocks or damage may occur. To avoid choking or any other injury, do not swallow any of the parts of this product. Keep the buds out of reac Interference with medical equipment

OnePlus Buds Pro and the charging box also contain magnets. These electromagnetic fields and magnets may nterfere with pacemakers, defibrillators or other medical equipment. Keep medical equipment a safe distance attention when you are driving. You are not advised to use OnePlus Buds Pro during driving. In some regions, using buds when you are driving th your pacemaker, defibrillator or other medical equipment, stop using them. the buds may result in ear infections. Use soft and lint-free cloth to clean OnePlus Buds Pro regularly. Avoid getting the buds wet or using aerosol sprays, solvents or abrasives on them. Stop using the buds if a skin oblem occurs. Consult a doctor if the skin problem persists.

2. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable

3. Please do not put the battery in a high-temperature environment or expose it to the sun; doing so could cause Please do not continue to use the product if the battery appears to be swollen 5. Please dispose of the battery in accordance with local regulations. Do not dispose of the battery as household

 Please do not attempt to repair, disassemble or modify the battery. Replacing battery by an incorrect type may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard. Your device can only use OnePlus authorized Please do not place pressure on or pierce the battery with hard objects. Damaging the battery could cause Do not short-circuit a battery or allow metallic or conductive objects to contact the battery terminals. 9. Avoid dropping the device or battery. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection. All batteries have a limited lifespan and will begin to lose capacity after several hundred charges/discharges 1. If you experience any battery abnormalities, such as high temperature, discoloration, distortion, or leakage

Observe all safety instructions for any places, especially in hospital/health care facilities, service stations, schools professional garages and in an aircraft. Please comply with the relevant regulations of the country or region and do not use this product when driving.

immediately discontinue usage of the device and contact customer support.

recautions for using the device:

Déclaration de conformité

इस पैकेज में नमिनलखिति एकसेसरीज़ हैं:

OnePlus Buds Pro टाइप-सी चारजणि कंबल कान युक्तविर्धें (बड़े आकार, छोटे आकार) संचालन के निर्देश सुरक्षा जानकारी और वारंटी कार्ड

सरकषा और संचालन जररी सरकषा सावधानयाँ

n and adolescents should make reasonable use of the device, limit the frequency and duration of use

OnePlus est une marque déposée de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Copyright : OnePlus Technology

OnePlus Device Warranty Information

Non-warranty scope

. Inconsistent product model or number on the warranty card with the actual product; 5. Normal wear/dirt caused by use, damage due to contact with chemical reagents, contact with sharp objects,

Damage caused by improper use, maintenance and storage; . Unauthorized maintenance, misuse, collision, negligence, abuse, liquid ingress, accident, alteration, and failures 9. Other failures and damages not caused by product design, manufacturing, and quality issues.

OnePlus is a registered trademark of OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Copyright:
OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved.
This manual is for informational purposes only and does not constitute a commitment of any kind.

Service and Support Address: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District

Câble de recharge de type-C Embouts auriculaires (grande taille, petite taille)

Consignes de sécurité et carte de garantie Sécurité et opérations

1. Consignes de sécurité importantes très sensibles (y compris des batteries). Le fait de les chuter, les brûler, les perforer, les écraser, les démonte

Pour désactiver le Bluetooth de OnePlus Buds Pro, placez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez le couvercle N'essayez pas de remplacer la batterie de OnePlus Buds Pro ou l'étui de charge vous-même, car vous pourrie:

équipements des technologies de l'information (IEC 60950-1/IEC 62368). L'utilisation d'un adaptateur

électrique tiers qui ne répond pas aux normes de sécurité ci-dessus peut entraîner des blessures. L'utilisation d'un câble d'alimentation ou d'un chargeur endommagé ou le chargement des écouteurs dans un environnement humide peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des pertes matérielles (par exemple, dommages au boîtier de charge). OnePlus décline toute responsabilité pour les accidents ou les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires non approuvés par OnePlus.

5. Contact prolongé avec une surface chaude
Lorsque l'appareil et son adaptateur secteur, le câble de charge et le connecteur ou le chargeur sans fil sont branchés sur une source d'alimentation, ne touchez pas et ne contactez pas l'appareil pendant une longue période. Sinon, un inconfort ou des blessures peuvent se produire. Par exemple, lorsque l'étui de charge, et câble de charge, et câble de charge, et connecteur ou la cadaptateur secteur, ne vous asseyez pas et ne dormez pas sur l'étui de charge, et câble de charge, et connecteur ou l'adaptateur secteur, et ne les placez pas sous une couverture, un oreiller ou votre corps. Si votre corps n'est pas très sensible à la chaleur, soyez particulièrement prudent. branchés sur une source d'alimentation, ne touchez pas et ne contactez pas l'appareil pendant une longue période. Sinon, un inconfort ou des blessures peuvent se produire. Par exemple, lorsque l'étui de charge, le câble de charge, le connecteur ou l'adaptateur secteur, et ne les placez pas sous une couverture, un oreiller ou votre corps. Si votre corps n'est pas très sensible à la chaleur, soyez particulièrement prudent.

6. Dommages auditifs

Écouter de la musique à un volume très élevé peut endommager de façon permanente votre audition. Le bruit de fond et un volume élevé continu réduiront le volume réel entendu à un volume inférieur à celui qui a été défini. Vérificz le volume avant de lire un fichier audio après avoir inséré les OnePlus Buds Pro.

[Avertissement] Pour éviter des dommages auditifs, n'écoutez pas

[Avertissement] Pour éviter des dommages auditifs, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant longtemps.

Pour éviter tout risque de suffocation ou toute autre blessure, n'avalez aucune des pièces de ce produit.
Conservez les écouteurs hors de portée des enfants.

8. Interférence avec l'équipement médical
Certains composants des écouteurs OnePlus Buds Pro et du boîtier de charge produiront des champs électromagnétiques. Les écouteurs OnePlus Buds Pro et le boîtier de charge renferment également des

aimants. Ces champs électromagnétiques et aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou autres équipements médicaux. Maintenez l'équipement médical à une distance sûre des écouteurs OnePlus Buds Pro/boltier de charge. Consultez votre médecin ou le fabricant de l'équipement médical pour en savoir plus sur l'équipement médical. Au cas où vous ne seriez pas sûr que les écouteurs OnePlus Buds Z et le boitier de charge interférent avec votre stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre équipement médical, arrêtez de les utiliser.

9. Irritation de la peau
Nettoyez régulièrement le trou du microphone et la maille de son sur les écouteurs pour éviter tout blocage. Un nettoyage inadéquat des écouteurs peut entraîner des infections de l'oreille. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer régulièrement les écouteurs OnePlus Buds Pro. Évitez de mouiller les écouteurs ou d'utiliser des aérosols, des solvants ou des abrasifs sur ceux-ci. En cas de problème de peau, arrêtez d'utiliser les écouteurs. Consultez un médecin si le problème de peau persiste.

10. Choé électrostatique
L'utilisation des écouteurs OnePlus Buds Pro dans un environnement sec peut provoquer de l'électricité statique et donner une faible décharge électrostatique. Afin de minimiser le risque de décharge électrostatique, évitez d'utiliser les écouteurs OnePlus Buds Pro dans un environnement sec ou de toucher des objets métalliques mis à la terre avant de les utiliser.

11. Avis d'opération
Normalement, la prise de type-C et le bas du tube des écouteurs OnePlus Buds Pro se décoloreront, ce qui est normal. La poussière, les débris et l'infiltration d'eau peuvent en être la cause. Avant tout nettoyage, sortez les écouteurs OnePlus Buds Pro du boîtier, et débranchez le câble de type-C-à-USB qui relle le boîtier au PC ou à l'adaplateur PC. Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour nettoyer la prise de type-C et le fond du tube des écouteurs OnePlus Buds Pro. Nutilisez pas de nettoyant liquide.

12. Assi

Use OnePlus Buds Pro and the charging case with care. They contain highly sensitive electronic components

such as helium) will damage or destroy them, or cause personal injury. Do not use damaged OnePlus Buds

Battery
 Do not attempt to replace the battery of OnePlus Buds Pro or the charging case by yourself, as you may damage

The buds can be charged with a power cable and power adapter or through a PC. Power adapters must

comply with local and national regulations and regional and international safety standards, including International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1/IEC 62368). Using

sponsibility for accidents or problems caused by using accessories that are not approved by OnePlus

a power source, do not touch or contact the device for a long time. Otherwise, discomfort or injury may occ

any third-party power adapter that does not comply with the above safety standards may result in inju

(including batteries). Falling, burning, puncturing, crushing, disassembling, or exposing them to high temperat

To disable Bluetooth of OnePlus Buds Pro, place the buds into the charging case and close the cover

activités susceptibles de distraire votre attention lorsque vous conduisez.

Il n'est pas conseille d'utiliser les OnePlus Buds Pro pendant la conduite. Dans certaines régions, l'utilisation des écouteurs lorsque vous conduisez est illégale. Prenez connaissance et respectez les lois et réglementation

Les appareils sans fil peuvent interférer avec le système de vol d'un avion. Conformez-vous aux réglementations en vigueur de la compagnie aérienne et n'utilisez pas les OnePlus Buds Pro là où les appareils sans fil sont interdits.

surface dure, et que l'utilisateur soupçonne qu'il est endommagé, emmenez-le à un centre de service pour inspection.). Toutes les batteries ont une durée de vie limitée et commenceront à perdre de leur capacité après plusieurs

centaines de charges/décharges.

1. Si vous constatez des fonctionnements anormaux de la batterie (température élevée, décoloration, distorsion ou fuite), arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle. Consignes de sécurité

Ising the OnePlus Buds Pro in a dry environment may cause static electricity and give a weak electrostati

Normally, the Type-C plug and the bottom of OnePlus Buds Pro tube will fade, which is normal. Dust, debris,

Informations relatives à la garantie des appareils OnePlus es appareils OnePlus achetés sur oneplus.com ou par le biais de canaux de vente agréés bénéficient d'ur

plus de détails, contactez le service clientèle OnePlus en allant sur oneplus.com/fr/support

Portée hors garantie

Garantie expirée ; Aucune carte de garantie valide et facture valide ;

जुद्धत कुटस्पा कार्यवाचारा OnePlus Buds Pro और चार्याणी केस का इसतेमाल सावधानी से करें। इनमें बहुत ज्यादा संवेदनशील इलेकट्रॉनार्व घटक (जिनमें बेटरी भी शामील है) होते हैं। गांटीज़ें, जलाज़ें, पंकचर करने, कुचलने, उद्याइने, या उचच तापमांन, तर्थ या उचच-सांद्रदाता वाले ओदियोगिक स्यायांनी के संपरक में आने से जिसे को उन्हें हीलयिम नेज़ी बाष्प्रपान्न दर्शन गैस के पास रखना) उनहें नुकसान पहुंचा सकता हैया नष्ट कर सकता है, या व्यक्तगित चोट का कारणे बन सकट है। बगिड़े हुए OnePlus Buds Pro या चारजणि केस का उपयोग न करें। . us Buds Pro के ब्लूट्रथ को अक्षम करने के लिए, बड्स को चारजिंग केस में रखें और कवर को बंद कर दे

बटर। 3. OnePlus Buds Pro की बैटरी या चार्जिंग केंस को खुद से बदलने का प्रयास न करें, क्योंकि आप बैटरी को हानि पहुंचा सकते हैं और जुरुरत से ज्यादा गर्मी और व्यक्तिगित चोट का कारण बन सकते हैं। 1. चारजिंग बड्स को पॉवर केबल और पॉवर एडाप्टर से या फरि पीसी के ज़रिए चार्ज किया जा सकता है। पॉवर एडापटर को

स्थानीय और राष्ट्रीय वनियमों का, और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना चाहिए, जिनमें सुचना प्रीद्योगिकी उपकरणों के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक (IEC 60950-1/IEC 62368) शामांक है। काहीं ऐसे तृतीय पक्ष के एडाप्टर का पृथ्योग करने हैं। चार लग सकती है जो उपयोकत सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करता क्षित्रीय एक्स केंग्र केंग्र या चारजर का पृथ्योग करने या गीठ महोले में बड्ड का पृथ्योग करने के पर्णामस्वरूप आग लगना, बिजलें का झटका, चोट या संपत्ती को नुकसान हो सकता है। CnePlus द्वारा अनुमीतित नहीं कोंग्र 10 एक्सेसरीज़ के उपयोग से होने वाली दुरघटनाओं या समस्याओं के लिए OnePlus कोई जिमेमेरारी नहीं लेगा। लिए OnePlus कोई जिमिनेदारी नहीं लेगा।

- गर्म सतह पर लंबे समय तक संपर्क

- गर्म सतह पर लंबे समय तक संपर्क

जब इस डविड्स और इसके पावर एडॉप्टर, चार्जिंग केबल और कनेक्टर, या वायरलेस चार्जिंर को पावर स्रोत में
पूलग किया जाए, तो इस डविड्स को लंबे समय तक सुपर्श या संपर्क न करें। अनुवार्था, असुवधि या कृपता पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए, जब चार्जिंग केस को चार्जिंग केबल और पावर एडॉप्टर के माध्यम से चार्जिं कार्या जा रहा हो, तो चार्जिंग केस, चार्जिंग केबल, कनेक्टर, या पावर एडॉप्टर पर न बैठे या सीएं और न ही उनहें कार्सी कंबल, तकारी या अपने शरीर के नीचे रखें। अगर आपका शरीर गर्मी के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील नहीं है, तो

वाधीष दूप से सावधान रहा . शुरवण शकता में कचय बहुत ऊची आवाज़ में संगीत सुनने से आपकी शुरवण शकति को सुधाई नुकसान पहुंच सकता है। बैकग्रउंड शोर और एक नरिसर ऊची आवाज़, सुनाई दे रहीं वास्तविक आवाज़ को नरिधारित आवाज़ से कम कर देंगे। OnePlus Buds Pro डालने के बाद ऑडियी चलाने से पहले वॉल्यूम की जाँच कर लें। चितावनी] श्रवण शक्ति की क्षति से बचने के लिए, लंबे समय तक ऊंची आवाज़ में संगीत न सुने।

<mark>चोक होने का खतरा</mark> दम घुटने या किसी अन्य चोट से बचने के लिए, इस उत्पाद के किसी भी भाग को नगिलें नहीं। बड्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखा। . चकितिसा उपकरणों में दखलंदाज़ी OnePlus Buds Proबंड्स के कुछ पुरुने और चारज बॉक्स विद्युतचुंबकीय क्षेत्र, पैदा करेंगे। OnePlus Buds Pro बंड्स और चारज बॉक्स में चूंबक भी होते हैं। ये विद्युतचुंबकीय क्षेत्र और चुंबक पंसमेकर, इफिबिरलिस्ट और दूसरे चिकितिसीय उपकरणों में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। चिकितिसीय उपकरणों को OnePlus Buds Pro बंड्स/चारज़ बॉक्स से सुरक्षपति दूरी पर रखें। चिकितिसीय उपकरणों के बारे में और पता करने के लिए अपने डॉक्टर या चिकितिसीय उपकरण निर्माता से परामर्श लें। अगर आप इस बारे में निश्चित नहीं है का OnePlus

ु बड्स और चार्ज बॉक्स आप्के पेसमेकर, डिफबि्रलिंटर और दूसरे चकित्सीय उपकरणों में व्यवधान पैदा Buds Pro बॅड्स आर चार्ग षाक्व जानपर नजनकर, जन्मकुन्य कर रहे हैं या नहीं, तो बड्स का उपयोग करना बंद कर दें।

कर रहे हैं या नहीं, तो बड़स को उपयोग करना बंद कर दें।
. त्वचा की जरून माइकरीएंग्रेज के छिदिर और बड़स पर साउंड की जाली को नियमति रूप से साफ करते रहें ताक वि बलॉक न हों। बड़स को गल्वत तरीके से साफ करने से कानों में संकर्तण हो सकता है। गत्म और रोऑरहित कपड़े से OnePlus Buds Proको नियमित दूप से साफ करते रहें। बड़स को भाणींने से या उप पर एरोसॉल के प्रपूर, सॉल्वेट या रगड़ वाले पदारथों का प्रयोग करने से बचे। अगर त्वचा की कोई समस्या होती है तो बड़स का उपयोग करना बंद कर दें। अगर त्वचा की समस्या बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें। OnePlus Buds Pro को सूखे माहोल में उपयोग करने से सुटैटिक विद्युत पैदा हो सकती है और कमज़ोर इलेकट्रोस्टैटिक झरना के कार्य, OnePlus Buds Pro को सूखें माहोल में उपयोग करने से या उनका उपयोग करने से पहले ज़मीन से लगीं धातू की वस्तुओं को छूने से बचे।

क लाए, One-Nus Buds Proof ा सून माहाल में उपयोग करने हो या उनका उपयोग करने हो पहले ज़ानाने से लगी धात की वस्तुआ को छूने से बंचों 11. ऑपरेशन नोटिसी सामानय तोट पर, टाइप-सी प्लग और OnePlus Buds Pro बहुस ट्यूब के नचिले हसिसे का रंग फीका पड़ जाएगा, जो कि सामानय बात है। शूल, मलंबा और पानी जाने से ऐसा हो सकता है। साफ करने से पहले OnePlus Buds Pro बहुस को बांक्स से बाहर निकाल, और उस टाइप-सी यूएसबी कंबल को अलग कर दे जो बांक्स को पीसी वा पीसी हाडाप्टर से जोड़त हो निक्र सुन सुन श्री रही या सुपराबी कंबल को अलग कर दे जो बांक्स को पीसी वा पीसी हाडाप्टर से जोड़त हो निक्र सुन सुन श्री रही राजी-हरित कपड़े से टाइप-मी प्लग और OnePlus Buds Pro बहुस ट्यूब के नचिले हिस्से को साफ करे। दरव कलीन्ज़र का उपयोग नहीं करे। 12 सपीर्ट उसपित और समस्यानविरण संबंधी जानकारी, उपयोगकरता इतिकशन बोर्ड और नवीनतम OnePlus सॉफ्टवेयर डाउनलोड़ के लिए यहां जाएँ https://www.oneplus.com/in/support 13. डातिइस का ऑपरेटिण तापमान 4% में 7% की आरदित को लिए एट से 35°C है। इतिइस का सटोरेज तापमान -15°C से 35°C है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम तापमान, क्वालिटी को खराब कर सकता है और बहुस और बैटरी को भी नुकसान पूर्वचा सकता है। 11 चार्कर का ऑपरेटिण तापमान 5°C से 35°C है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम तापमान बहुस को चार्ज़ होने से रोक रेगा, या इतिइस को नुकसान भी पहुंचा सकता है।

. हमेशा ध्यान रखें कि सुरक्षति इराइवणि सबसे ज़रूरी है। कभी भी ऐसी एक्टविटिी में शामलि न हों, जो गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान भटकाएं।

समय आपका ध्यान भेटकाएं। 2. आपको इराइवर्गि के दौरान OnePlus Buds Pro का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। कुछ क्षेत्रों में, जब आप गाड़ी चला रहे हों तो बड़स का उपयोग करना गैरकानृनी है। जिसे देश में आप इराइवर्गि कर रहे हैं, वहां के बड़स के उपयोग के कानृनी और नियमों को समझें और उनका पालन करें। 3. जब भी आप रहाइव करें तो मुरक्षपृत्ति और केंट्रविट है। अगर इराइव करते समय बड़स से आपका ध्यान बँट रहा है या अगर आप कोई अन्य ऐसी एक्ट्रविटी कर रहे हों जिसमें एकाग्रता की ज़रूरत हो तो उनका इस्तेमाल बंद कर पा 4. वायरलेस डविाइस एक वभान की उड़ान प्रणाली में हसतक्षेप कर सकते हैं। एयरलाइन के ज़रूरी नियमों का अनुपालन करें, और OnePlus Buds Pro का उपयोग न करें जहां वायरलेस डविाइस निषिद्ध हैं।

बैटरी से जुड़ी चेतावनी

1. इस परोडकर में एक लथियम बेटरी अंतरनहिंति है। इसे खोलकर नकिलना, चोट पहुँचाना, जबरन नकिलना या आग के संपर्दक में लाना करई नहीं किया जाना चाइए।

2. बहुत कम वायु दबाव में आने पर बैटरी में विस्फोट हो सकता है।

3. कृपया बैटरी को ऊंच वापमान वाले माहोल में या धूप में न रखे, ऐसा करने से इसमें विस्फोट हो सकता है।

4. अंगर बैटरी फूली हुई दिखती है, तो उत्पाद का प्रत्योग करना बंद कर है।

5. कृपया बैटरी का निरायण संभानीय विनियम के अनुसार करें। कृपया बैटरी का घरेलू कचरे दे के दूप में अंदिपास न करें।

6. कृपया बैटरी को सुंखारने, उसे अलग करने या संशोधोंत करने की प्रत्यास न करें। गण्ठत तरीकें से बैटरी बदलने से अंग, विस्फिट, रक्षित या अन्य नुकसान करें।

6. कृपया बैटरी को सुंखारने, उसे अलग करने या संशोधोंत करने की प्रत्यास न करें। गण्ठत तरीकें से बैटरी बदलने से अंग, विस्फिट, रक्षित या अन्य नुकसान का खतरा हो सकता है।

6. कृपया बारी चीनों से बैटरी पर दबाव न डालें या नाही उनमें छेद करें। बैटरी को नुकसान पहुंचाने से बैटरी लीकेंग, औवरहींटिंग या उनमें आग लग सकती है।

8. बैटरी की शाँदर-सरकति है न करें या धातू या संवाहक चीज़ों को बैटरी टरमिलने से संपर्क में न आने दें।

9. डविइस या बैटरी को नीचे गरिने न दें। अगर डविइस या बैटरी नीचे गरि जाए, विशेष दूप से किसी कड़ी सतह पर, और उपयोगकरता को नुकसान करिस हो।

10. सभी बैट्रयीं का एक सीमति लाइफस्पैन होता है और कई सौ चार्ज/इस्चिग्र्ज के बाद उनकी क्षमता कम होने लगती हैं। . अगर आप उचच तापमान, मलनिकरिंग, विकृति या रक्षिाव जैसी कोई भी बैटरी असामान्यताओं का अनुभव करते हैं, तो तुरंत इविइस का उपयोग बंद करें और गुराहक सहायता से संपर्क करें।

सुरक्षा जानकारी
इतिइस का उपयोग करने के लिए सावधानयिँ:
1. किंसी भी सुथान के लिए सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, विशेष रूप से असुपताल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं,
सेवा सटेशनों, सल्कुलों, पेशेवर गैरज और एक विभान में भी।
2. कृपया देश या कंपेवर के संबंधित निरीमों का पालन करें और वाहन चलाते समय इस प्रोडकर का उपयोग न करें।
इयान रखें कि इंदोडिवीग सुरक्षा सबसे जुरूरी चींग है और ऐसा कुछ भी न करें निर्सिस ध्यान भेग हो।
3. इलेक्ट्टॉनिक प्रत्यारोपण (पिसनकर्स, इंसुलिन पूप, नयूरोस्टॉमियूलेटर आदी) वाले व्यक्तवायों को इस इविइस को प्रत्यारोपण से 16 एक सूर या प्रत्यारोपण के विपर्देश नगह पर देखने की सलाइ वी नाती है।
4. देडिशन के संपर्क के सुतर को कम करने के लिए, आपको इस इविइस का उपयोग अचुली रिसेप्शन स्थितियों में करना चाइिट वायरलेस कनेक्शन की इंप्रेक्टिवी रिसेप्शन रेज 10 m है।
5. इस इविइस को गर्भवती महािओं के पर से दूर रखें।
6. इस इविइस को गर्भवती महािओं के पर से दूर रखें।
7. बच्चों और नौजवानों को इस इविइस का उचिति उपयोग करना चाहिए, आवृत्ती और उपयोग की अवधि की सीमित रखना चाहिए।

Unerlus उपकरण वारटा को जानकारा।
oneplus com पर या अधिकृत बिक्री माध्यमों से खरीदे गए OnePlus उपकरण सीमति वारंटी के साथ आते हैं। इस वारंटी
की अवार्ष खरीद के मूल देश या कषेतृद पर निर्हेशर करती है और केवल मूल देश या कषेतृद के भीतर ही इसका लाभ
लिया जा सकता है। अगर इससे अंलग न बताया हो, तो यह वारंटी मूल रूप में आपूरता किए गए उत्पाद के हार्डवेयर
घटकों को कवर करती है और सांफुटवेयर, खद्य होने वाले आइटम या एक्सेसरीज़ को कवर या ओशिक रूप में कवर
नहीं करती, लेले ही उन्हें उत्पाद के साथ पैक्ल किया गया या बंचा गया हो। सीमित वारंटी केवल कारोगरी या निर्हेमाण
की सामग्रीयों के कारण हुए उत्पाद के कार्यात्मक दोषों को कवर करती है। अधिक विवरण के लिए कृपया
oneplus.com/support पर जांकर OnePlus गुराहक सहायता से संपर्क करें।

De frequentiebanden en de nominale limieten van het zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) van toepassing op deze radioapparatuur zijn als volgt. Bluetooth (2402-2480MHz): -13dBm De frequentiebanden van de draadloze stroomtransmisse zijn 110 kHz -205 kHz.

Ear Tips (large size, small size)

Safety Information & Warranty Card

Long-term contact with hot surface

2. कोड वध वारटा कार्ड और वध चांजान नहा; 3. वास्तविकि प्रोडक्ट के साथ वारंटी कार्ड पर अनुचित उत्पाद मॉडल या संख्या; 4. वारंटी कार्ड का अनघिक्ति बदलाद; 5. उपयोग के कारण सामानूय खरीच /गंदगी, रासायनिक रिजेट के संपर्क के कारण नुकसान, नुकीली वस्तुओं के

र. जनुभाव उपचाग, रबरखाव जार सुटारंग क कारण नुकसान; 8. गैंट-OnePlus एक्सेसरींग के गलत उपयोग के कारण अनधिकृत रखरखाव, दुरुपयोग, टकराव, लापरवाही, दुर्व्यवहार, तरल अंतर्गरहण, दुर्घटना, बदलाव, और विफेलताएं (क्योंकि गैंट-OnePlus एकसेसरींग की सलाह नहीं दो जाती है); 9. अन्य विफेलताएं और नुकसान जो प्रोडक्ट डिजाइन, निर्माण और क्वालरीं के मुद्दों के कारण न हों।

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. का रजसिट्ट्ड ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. सरवाधिकार सुरक्षति। यह पुस्तिका केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए और इसमें किसी पुरकार की वचनबद्धता नहीं है।

FCC Regulatory Conformance

he antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna

Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. applicables aux appareils radio exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement Écor

is device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-003 (B) / NMB-003(B). ppareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est confo equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environmen is device complies with ICES-001 of Canada, CAN ICES-001 (B) / NMB-001 (B) Cet appareil est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

This device complies with the RSS-216 of Canada. CAN RSS-216 / CNR-216.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-216 du Canada.

RF Exposure Information (SAR)
This equipment has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure.
Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. The SAR limit is 1.6 watts per kilogram in countries that set the limit averaged over 1 gram of tissue. During testing, device radios are set to their highest transmission levels and placed in positions that simulate use near the head, with Omm separation. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified.
Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables d'exposition aux radiofréquences (RF). Le débit d'absorption spécifique est la vitesse à laquelle le corps absorbe l'ênergie radiofréquence. La limite du débit d'absorption spécifique est la vitesse à laquelle le corps absorbe l'ênergie radiofréquence. La limite du débit d'absorption spécifique est de 1,6 watt par kilogramme dans les pays où la moyenne a été établie sur un gramme de tissus. Pendant l'essa, les racios de appareil sont réglées sur le niveau de transmission maximal et sont placées dans des positions simulant une utilisation à proximité du Tête, avec une séparation de Omm. Les étuis dotés de pièces métalliques peuvent modifier les performances des radiofréquences de l'appareil, y compris as conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences, d'une façon qui n'a pas été testée ou certifiée.

EU / UK Regulatory Conformance CE Statement
Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment type E503A is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity (EU-DOC) is available at the followin

EN

UK Statement
Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment with this declaration and bearing the UKCA Mark complies with UK Radio Equipment Regulations 2017(S.I. 2017/1206). and bearing the UKCA Mark complies with UK Radio Equipment Regulations 2017(S.I. 2017/1206).
The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: This product complies with directive 2011/65/EU. RoHS regulations 2012(S.I. 2012/3032) and its amendments

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Correct disposal of this product

. ower transmitted in the frequency bands in which the radio equipment operates: The

echnology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto deklaruje shodu rádiového zařízení typu E503A s

Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands Keizersgracht 482. 1017EG. Amsterdam, the Netherlands Black Bull Yard, 18a Hatton Wall, London, EC1N 8JH

Shoda s regulačními opatřeními EU

Vyhýbejte se dlouhému poslechu při vysokých hlasitostech, předejdete tak možnému poškození sluchu

lokální systémy pro sběr použité elektroniky, nebo kontaktujte prodejce, u něhož bylo zařízení původně

Informace o dovozci Dovozce do EU: Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands

Die Frequenzbereiche der drahtlosen Leistungsübertragung sind 110 kHz 205 kHz.

Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands

Informationen zum Importeur

EU-conformiteit met regelgeving OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type E503A voldoet aan de richtliin 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.oneplus.com/support/manuals Kennisgeving: Neem de landelijke en plaatselijke voorschriften in acht op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt.

Dit product voldoet aan de richtliin 2011/65/EU en wijzigingen betreffende de beperking van het gebruik van

bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Niet gedurende langere tijd op een hoog volumeniveau naar muziek luisteren om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Dit apparaat is mogelijk beperkt voor gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in de frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt: Het maximale vermogen voor alle banden is minder dan de hoogste grenswaarde die is gespecificeerd in de

EL-i regulatiivne vastavus

Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikka aega järjest kõrge helitugevusega. Se seadmel, akudel (kaassa) ja/või pakendil olev sümbol (läbiva joonega või ilma) näitab, et seadet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt peakomplekti, adapterit või kaablit) ja akusid el tohi visata olmeprügi hulka. Seadme nutu ringlussevõtu tagamiseks palume teil kasutada kohalikku tagastus- või kogumissüsteemi või pöörduda

Sagedusribad ja võimsus Euroopas Maksimaalne raadiosageduslik võimsus, mida edastatakse raadioseadme kasutatavatel sagedusribadel: kõigi ribade maksimumvõimsus on väiksem kui seotud harmoneeritud standardis täpsustatud kõrgeim piirväärtus. Selle raadioseadme puhul kehtivad sagedusribade ja edastusvõimsuse (kiiratav ja/või juhitav) nominaalpiirangud on järgmised. Bluetooth (2402-2480MHz): <13dBm uhtmevaha võrgu võimsusülekande sagedusalad 110kHz – 205kHz

Importija teave

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ilmoittaa täten, että E503A-tyyppinen radiolaite noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa internet-osoitteessa: nttps://www.onepius.com/support/manuais Ilmoitus: Noudata sen alueen paikallisia säädöksiä, missä laitetta tullaan käyttämään. Jotkut tai kaikki Euroopan unionin (EU) jäsenmaat saattavat rajoittaa tämän laitteen käyttöä.

mä tuote noudattaa direktiiviä 2011/65/EU ja sen muutoksia koskien tiettyjen vaarallisten aineiden käyttörajoituksi sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Ålä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta et saa kuulovauriota. keen saaannukainen mavtanimen. 7 Tämä symboli (kiinteällä viivalla tai ilman) laitteessa, akuissa (ohessa) ja/tai pakkauksessa ilmoittaa, että laitetta ja sen sähköisiä lisävarusteita (esim. kuulokkeet, verkkolaite tai kaapell) ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Kierrätä laitteesi turvallisesti käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai pyytämällä

neuvoa jälleenmyyjältä, jolta tuote hankittiin. Eurooppalaiset taajuusalueet ja teho Maksimiteho kaikilla taajuusalueilla on pienempi kuin asianmukaisten harmonisoitujen standardien korkein raja-arvo ämän radiolaitteen taajuusalueiden ja lähetystehon (säteily- ja/taj johtunut teho) nimellisrajat ovat seuraavat Bluetooth (2402-2480 MHz): <13dBm Langattoman voimansiirron taajuuskaista 110kHz - 205kHz.

Maahantuojatiedot Maahantuoja EU:ssa: astern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, The Netherlands

eizersgracht 482. 1017EG. Amsterdam. The Netherlands

Déclaration de conformité CE

Conformité aux normes RoHS le certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Pour prévenir les risques de pertes d'audition, n'écoutez pas à de forts niveaux sonores pendant des périodes prolongées.

ar la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que ce E503A de type équipement radio es

onforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE peut

Mise au rebut de ce produit

Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Pays-Bas

Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, les Pays-Bas

Ce symbole (avec ou sans barre pleine) sur l'appareil, les piles (incluses) et/ou l'emballage, indique que l'appareil et ses accessoires électriques (par exemple, un casque, un adaptateur ou un connecteur) et les piles ne doivent pas être jetés avec vos autres déchets domestiques. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser le système de retour et de collecte local ou contacter le détaillant ayant vendu Puissance maximale des fréquences radio transmises dans les bandes de fréquences dans lesquelles fonction a puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée, spécifiée dans la

applicables à cet équipement radio sont les suivantes : Bluetooth (2402-2480MHz): <13dBm Les bandes de fréquence de transmission de puissance sans fil 110kHz- 205kHz Informations sur l'importateur

Konformität mit den EU-Vorschriften Hiermit erklärt die OnePlus Technology (Shenzhen) Co., dass das funktechnische Gerät des Typs E503A die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformität- serklärung ist unter folgender Internetadresse Hinweis: Beachten Sie die lokalen Vorschriften des Ortes, an dem das Gerät verwendet wird. Dieses Gerät kann für die Verwendung in einigen oder allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) eingeschränkt sein.

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 2011/65/EU und ihre Ergänzungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit hohe Lautstärken.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Dieses Symbol (mit oder ohne festem Balken) auf dem Gerät, den Batterien (im Lieferumfang enthalten)

und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät und sein elektrisches Zubehör (beispielsweise
ein Headset, Adapter oder Kabel) und Batterien nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um Ihr Gerät
sicher zu recyceln, nutzen Sie bitte lokale Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde.

Confirmtà RoHS Maximale Hochfrequenzleistung, die in den Frequenzbändern für den Betrieb des Funkgeräts übertragen wird: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert der jeweiligen harmonisierten Norm. Die für diese Funkeinrichtung geltenden Frequenzbänder und Sendeleistungen (gestrahlt und/oder leitungsgeführt) sind wie folgt. Bluetooth (2402-2480 MHz): <13dBm

Conformità alle normative UE

di tipo E503A è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile Avviso: osservare le normative locali nazionali nella località dove si intende utilizzare il dispositivo. L'utilizzo di questo Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE e alle sue modifiche, sulla limitazione dell'uso di determinate

Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a volumi elevati per lunghi periodi. Questo simbolo (con o senza la barra piena) sul dispositivo, sune batterie tricuser e pro suna contrezante indica che è vietato smaltire il dispositivo, i relativi accessori elettrici (pes. cuffie, adattatori cavile e batterie insieme ai rifiuti domestici. Per un riciclo sicuro del dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta locali

a potenza massima per tutte le bande è inferiore al valore del limite massimo specificato nel relativo standard imiti nominali per le bande di frequenza e la potenza di trasmissione (irradiata e/o condotta) applicabili alla

LV

Atbilstība ES tiesiskajam regulējumam

CE atbilstības deklarācija Ar šo uzņēmums OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. apliecina, ka radio aprīkojums E503A atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas (ES-DoC) teksts ir pieejams tīmekļa vietnē https://www.oneplus.com/support/manuals.
Paziņojums: ievērojiet tās valsts vietējos noteikumus, kurā ierīce tiks lietota. Šīs ierīces lietošana var būt ierobežota dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

is produkts atbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2011/65/ES lektriskās un elektroniskās iekārtās, kā arī tās grozījumos. Pareiza ši produkta likvidėšana
Sis simbols (ar nepārtrauktu joslu vai bez tās) uz ierīces, akumulatoriem (iekļautī) un/vai iepakojuma norāda, ka ierīci un tās elektriskos piederumus (piemēram, austiņas, addretir vai kabeli) un akumulatorus nedrikst likvidēt kā sadzīves aktivītumus. Lai droša jārstrādātu ierīci, lūdzu, izmantojiet vietējās nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura ierīce tika sākotnēji iegādāta.

Eiropas frekvenču joslas un jauda Maksimālā radiofrekvences jauda, kas tiek pārraidīta frekvenču joslās, kurās darbojas šis radio aprīkojums. Visu joslu maksimālā jauda ir zemāka par augstāko robežvērtību, kas norādīta saistītajā saskaņotajā standartā. Frekvenču joslu un pārraides jaudas (starotas un/vai vadītas) nominālās robežvērtības, kas attiecas uz šo radio aprīkojumu, rīs ādass Bluetocht (2402-2480MHz)s- 43dBm Bezvadu jaudas pārraides frekvenču joslas 110–205 kHz

oninėje įrangoje apribojimo.

Informācija par importētāju

mportétájs ES: Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Netherlands

Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands

CE pareiškimas Šiuo dokumentu "OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd." pareiškia, kad E503A tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atititities deklaracijos (ES-DK) tekstą galite rasti šiuo interneto adresu

Kad nepakenktumėte klausai, nesiklausykite pernelyg dideliu garsu ilgą laiką.

For more information on safe disposal and recycling you may log on to

Tinkamas šio prietaiso šalinimas

Šis simbolis (su ištisine juosta arba be jos) ant prietaiso, baterijų (pridedama) ir (arba) pakuočių rodo, kad prietaiso ir jo elektirinių priedų (pavyzdžiui, laisvų rankų įrangos, adapterio ar kabelio) ir baterijų negalima išensti kaip butilinų atliekų. Jel nortie saugiai perdirbti prietaisa, naudokitė vietines grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekitė su pardavėju, iš kurio prietaisas buvo įsigytas.

Siai radijo įrangai taikomos toliau nurodytos dažnių juostos ir perdavimo galia (spinduliuotės ir (arba) laidumo) vardinės ribos: "Bluetooth" (2402–2480MHz): <13dBm Informacija apie importuotoją

PL

Conformità alle normative UE Oświadczenie CE
Niniejszym OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. oświadcza, że sprzęt radiowy typu E503A jest zgodny z dyrektywą 2014/SyllE- Pelny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej pod następującym adresem: https://www.oneplus.com/support/manuals
Uwaga: Używaj urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem. Eksploatacja urządzenia może zostać ograniczona w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Zgodność z dyrektywą RoHS Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE i jej zmianami, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Aby zapobiec ewentualemy uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Prawidłowa utylizacja produktu

Symbol ten (z paskiem lub bez paskaj umieszczony ria urząuceniu, ouen akon (w zesiamia y kużo opaziamia) w skazuje, że urządzenia, jego akcesorów elektrycznych (na przykład sluchawki, zasilacz lub przewód) ani baterii nie należy wyrzucać z opadami domowymi. Aby bezpiecznie poddać urządzenie recyklingowi, w skrópona, należy skorzystać z lokalnych systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało pierwotnie zakupione. Maksymalna moc nadawana w pasmach częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy: Maksymalna moc dla wszystkich pasm jest mniejsza niż najwyższa wartość graniczna określona w odpowiednich ujednoliconych normach.

Zakresy częstotliwości i nominalne wartości graniczne mocy nadawczej (promieniowanej i/lub przewodzonej)

mające zastosowanie do tego sprzętu radiowego są następujące: Bluetooth (2402-2480MHz): < 13dBm Pasmo częstotliwości bezprzewodowej transmisji energii 110 kHz – 205 kHz.

Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands

Informacje dotyczące importera

Conformidade com RoHS

de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e elétrico.

Declaração da CE Declaração da Ct.
A OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo E503A está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto na integra da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte pode estar restrita em alguns ou em todos os estados-membros da União Europeia (UE

Para evitar lesões auditivas, não ouça a níveis de volume elevado durante períodos prolongados. Eliminação correta deste produto

Este simbolo (com ou sem uma barra continua) no dispositivo, baterias (incluidas) e/ou na embalagem, indica que o dispositivo e os respetivos acessórios elétricos (por exemplo, auscultadores, adaptador ou cabo) e baterias não devem ser eliminados em conjunto com residuos domésticos. Para reciclar o dispositivo em segurança, utilize os sistemas de devolução e recolha locais ou contacte o revendedor onde adquiriu o dispositivo.

Europäische Frequenzbänder und Leistung

Informação do importador Importador na UE:

Eastern Sun Trading B.V.
Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Países Baixos
Reflection Investment B.V.

Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdão, Países Baixos

potência máxima de todas as bandas é inferior ao valor limite mais elevado especificado na norma harmonizada os limites nominais das bandas de frequências e a potência de transmissão (radiada e/ a este equipamento de rádio são os seguintes: Bluetooth (2402-2480 MHz): <13 dBm Bandas de frequência de transmissão de potência sem fios: 110 kHz a 205 kHz.

Cumplimiento con la normativa de la UE

Declaración CE

Por la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico E503A es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.oneplus.com/support/manuals

Aviso: Cumple con las regulaciones locales y nacionales con jurisdicción en el lugar en el que utilizarás el dispositivo. El uso de este dispositivo puede estar restringido en algunos o todos los estados miembros de la Unión Europea (UE). Compiniente de con la directiva 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y sus correspondientes enmiendas.

No reproduzcas sonidos con un volumen demasiado alto y durante periodos de larga duración para evitar sufrir daños auditivos.

Este simbolo (corn est harra sólida) en el dispositivo, en las baterías (si están incluidas) y/o en el embalaje, indica que el dispositivo y sus accesorios eléctricos (por ejemplo, los auriculares, el adaptador o el cable) y las baterías no deben desecharse como residuos comunes. Para reciclar de forma segura el dispositivo, haz uso de los sistemas de devolución y recogida o ponte en contacto con el distribuidor al que se los hayas comprado. Eliminación correcta de este producto Bandas de frecuencia europeas y potencia
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico:
La potencia máxima para todas las bandas es inferior al valor limite máximo especificado en el estándar armonizado
relacionado. Las bandas de frecuencia y los limites nominales de la potencia transmitida (radiada y/o conducida).

aplicables a este equipo de radio son los siguientes: Bluetooth (2402-2480 MHz): < 13dBm

Keizersgracht 482. 1017EG. Ámsterdam. Países Baios

Información del importador

Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Países Bajos

farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Informazioni sull'importatore

Importatore UE: Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands

Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands

direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress på platsen där enheten ska användas. Den här enheten kan vara begränsad vad gäller användning i vissa eller alla EU-länder.

Denna produkt uppfyller direktiv 2011/65/EU och dess tillägg, om begränsningen av användningen av vissa

För att undvika eventuella hörselskador, lyssna inte på hög volym alltför länge.

Korrekt avfallshantering av denna produkt Penna symbol (med eller utan en solid stapel) på enheten, batterier (ingår) och / eller förpackningen, indikerar att enheten och desse elektriska tillbehör (till exempel headset, adapter eller kabel) och batterier inte ska eller kontakta återförsäljaren där du köpte din enhet.

Den maximala effekten för samtliga band är längre än det högsta gränsvärde som anges i den relaterade Harmoniserade

Naximal radiofrekvenseffekt överförs i de frekvensband där radioutrustningen fungerar:

är följande: Bluetooth (2402-2480MHz): <13dBm De trådlösa kraftöverföringsfrekvensbanden 110kHz - 205kHz. Importör Information

Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Netherlands Reflection Investment R.V.

India Regulatory Conformance

Recycling Initiative (INDIA)
At OnePlus/ Mobitech we understand that our responsibility doesn't end at selling you our products. OnePlus/ Mobitech has been working in the area of safe disposal of electronic waste. Since mobiles, tablets and other electronic items are made of hazardous constituents. Under the Guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, E-waste (Management) Rule, 2016 and Amendment E-waste Rule 2018.
OnePlus/ Mobitech will seek shared responsibility and ocoperation from customers in reducing the environmental impact of their products.
OnePlus/ Mobitech will comply with all the applicable laws related to E-waste management.
Declaration of Conformity hereby. OnePlus/ Mobitech India Private Limited (YonePlus/ Mobitech') states that OnePlus/ Mobitech is committed to comply with the extended producer responsibility vide authorization no. B-29016/(824)/ EPR18/ WM-III and amendment Division dated 18.07.2018 issued by Central Pollution Control Board.

https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management or write an email to oneplus.com or conta our Toll Free No. 1800-102-8411.

Material Name Plastic Property Mark Material Supplier Name Number Property Mark Price

Packing handle HDPE Dongguanhongye precision technology Co, Ltd.

Ear tips sticker PET Dongguanhongye precision technology Co, Ltd.

Shenzhen Guancheng Adhesive Products Co, Ltd.

Shenzhen Taixinghao 14419000A56R7PUIE

Easy tear sticker PP Dongguan Sanja Electronic Material Co, Ltd.

Blister PS Dongguan PuXiang products Co, Ltd.

Dongguan PuXiang products Co, Ltd.

Charging box sticker PP P PR Dongguan PuXiang products Co, Ltd.

Shenzhen Guronverse Gurone GO-New Special Films Co, Ltd.

Shenzhen Guronverse Governe CO-New Special Films Co, Ltd.

PLA protective film PLA Dongguan PuXiang products Co, Ltd.

The Plastic should be disposed of in accordance with applicable laws, Such Plastic should preferably be recycled.

Never

Version: 1.0